

दोहे रमेश के, मकर संक्राँति पर

By : INVC Team Published On : 13 Jan, 2018 12:00 AM IST

दोहे रमेश के

मकर राशि पर सूर्य जब, आ जाते है आज !उत्तरायणी पर्व का,.....हो जाता आगाज !!

घर-घर फिरकी फिरी, उड़ने लगी पतंग !कनकौओं की छिड़ गई,,आसमान मे जंग !!

कनकौओं की आपने,ऐसी भरी उड़ान !आसमान मे हो गये ,पंछी लहू लुहान !!

अनुशासित हो कर लडें,लडनी हो जो जंग !कहे डोर से आज फिर, उडती हुई पतंग !!

भारत देश विशाल है,अलग-अलग हैं प्रांत !तभी मनें पोंगल कहीं, कहीं मकर संक्रांत !!

उनका मेरा साथ है,...जैसे डोर पतंग !जीवन के आकाश मे,उडें हमेशा संग !!

त्योहारों में घुस गई, यहांँ कदाचित भ्राँति !मनें एक ही रोज अब,नही मकर संक्राँति !!

जीवन में मिल कर रहो, सबसे सदा “रमेश” !देता है संक्राँति का,पर्व यही सन्देश !!

तिल गुड़ की के लडडू मिलें, खाने को हर बार !आता है संक्राँति का,..... जब पावन त्यौहार !!

तिल-गुड़ गज्जक रेवड़ी,सर्दी के पकवान !खाएं जिनको स्वाद ले , हर कोई इंसान !!

लेवें सब संक्राँति पर, आज यही संज्ञान !तिल के लाडू से बड़ा, नहीं दूसरा दान !!

पोंगल खिचड़ी लोहड़ी,तीनो ही त्यौहार !आते हैं संक्राँति के ,साथ साथ हर बार !!

परिचय :-

रमेश शर्मा

लेखक व कवि

बचपन राजस्थान के जिला अलवर के एक छोटे से गाँव में गुजरा , प्रारंभिक पढाई आठवीं तक वहीं हुई, बाद की पढाई मुंबई में हुई, १९८४ से मुंबई में एक प्राइवेट कम्पनी में नौकरी की शुरुआत की , बाद में नौकरी के साथ साथ टैक्स कन्सल्टन्ट का भी काम शुरू किया जो कि आज तक बरकरार है , बचपन से ही कविता सुनने का शौक था काका हाथरसी जी को बहुत चाव से सुनता था , आज भी उनकी कई कविता मुझे मुह जुबानी याद है बाद में मुंबई आने के बाद यह शौक

शायरी गजल की तरफ मुड़ गया , इनकम टैक्स का काम करता था तो मेरी मुलाकात जगजीत सिंह जी के शागिर्द घनशाम वासवानी जी से हुई उनका काम मैं आज भी देखता हूँ उनके साथ साथ कई बार जगजीत सिंह जी से मुलाकात हुई ,जगजीत जी के कई साजिंदों का काम आज भी देखता हूँ , वहीं से लिखने का शौक जगा जो धीरे धीरे दोहों की तरफ मुड़ गया दोहे में आप दो पंक्तियों में अपने जज्बात जाहिर कर सकते हैं और इसकी शुरुआत फेसबुक से हुई फेसबुक पर साहित्य जगत की कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात हुई उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला

18/984,आश्रय को- ऑप. हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड खेर नगर , बांद्रा (ईस्ट) मुंबई ४०००५१ ...

फोन ९७०२९४४७४४ – ई-मेल. rameshsharma_123@yahoo.com

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/दोहे-रमेश-के-मकर-संक्रांत-2/>



12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.